

**निर्देशः— सभी प्रश्न हल कीजिए।**

**निर्देशः—** (i) प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न खण्ड—अ-ब में विभाजित है, इस प्रश्न में निर्धारित अंक 10 है।  
(ii) प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित हैं।  
(iii) प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक निर्धारित हैं।  
(iv) प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक के उत्तर 75 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक निर्धारित हैं।  
(v) प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित हैं।  
(vi) प्रश्न क्रमांक 24 व 25 में 8 अंक निर्धारित हैं।  
(vii) प्रश्न क्रमांक 14 से 25 में सभी प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं।

खण्ड 'अ'



ਖਣਡ 'ਬ'

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

- (i) महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की ..... कहते हैं।  
(ii) रामचरितमानस एक ..... है।  
(iii) मधुलिका ..... की पुत्री थी।  
(iv) पंडवानी ..... का छत्तीसगढ़ी संस्करण है।  
(v) संत कँवरराम के गुरु का नाम ..... था।

2. मधुलिका ने महाराज से कौन-सी भूमि माँगी?

3. उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए।



अथवा

शंखधारी व्यक्ति केवल उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शंखनाद क्यों करना चाहता है? पंथित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए।

15. गौंगे और जानी की तुलना कर कबीरदासजी क्या कहना चाहते हैं?

अथवा

श्री कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता को किस प्रकार दूर किया ?

16. 'पंतजी ने कविता में मानवीकरण किया है।' इस कथन को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

उत्साह एवं साहस में कोई चार अन्तर स्पष्ट कीजिए।

17. छत्तीसगढ़ अंचल की प्रमुख चार जातियों में पूजित देवताओं के नाम बताइए।

अथवा

गांधीजी के जीवन में हास्य प्रवृत्ति का बहुत महत्व था

- उत्तर दीजिए।

१८५

आधार पर दीजिया :

- (i) रसायनिकों द्वा  
रा उत्पादित  
माध्यमिक  
उत्पादकों  
में से एक  
है।

19. महादेवी वर्मा अथवा सुदाम का परिचय निम्नलिखित बिंदओं के आधार पर

- (i) रचनाएँ कोई दो
  - (ii) भावपक्ष की कोई तीन विशेषताएँ
  - (iii) कला पक्ष की कोई तीन विशेषताएँ

20. निम्नलिखित में से किसा एक गद्यांश की संदर्भ में प्रसंग विशेष सहित व्याख्या कीजिए :  
 “ साधना का एक चरम क्षण व्यर्थ जा रहा है बाबू। मैंने सात दिनों तक मंत्र साधना करके इस शंख में वह शक्ति उत्पन्न की है कि जिधर फूँक दूँ वही दिशा भस्म हो जाए, पर मुझे यह बताने वाला कोई नहीं है कि उत्तर दिशा कहाँ है? कहाँ है उत्तर दिशा, कहाँ है? ”  
 “ उन्होंने व्यथित स्वरों से कहा और शंख हाथ में लेकर चारों ओर घूमने लगे और उनके साथ मैं भी घूमने लगा। ”

### अथवा

“ चारों ओर अँधेरा था, घरोंदो के पीछे, उन मकान कहलाने वाले घरोंदो के, जहाँ दिन-रात की भजदूरी से थका - माँदा जीवन बिना लहराए टकराता और टकरा-टकरा कर टूट जाता था और ये घरोंदे उसी तेजी से गला-पचा जीवन उगलते थे, जिस तेजी से दीवारों के पीछे कारखानों में तैयार माल। ”

21. मधुलिका की पाँच चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिये।

### अथवा

सद्यःस्नाता रमणी के सौंदर्य की तुलना वर्षा से क्यों की गई है? प्रकाश डालिए।

22. किसी एक पद्यांश की संदर्भ में प्रसंग विशेष सहित व्याख्या कीजिये :

नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है,  
 सूर्य-चन्द्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है,  
 नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है,  
 बंदी जन खग-बृंद, शेष फन सिंहासन है,  
 करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की।  
 हे मातृभूमि! तू सत्य ही, सगुणमूर्ति सर्वेश की।

### अथवा

कबहूँ ससि माँगत आरि करै,  
 कबहूँ प्रतिविम्ब निहारि डरै।

कबहूँ कर ताल बजाय कै नाचत,  
 मातु सबै मन मोद भैरै॥

कबहूँ रिसिआइ कहैं हठि कै,  
 पुनिलेत सोई जेहि लागि अरै।

अवधेस के बालक चारि सदा,  
 तुलसी मन मंदिर में बिहैं।

23. आपका नाम विशाल राम मंडावी है। आप शा. बालकृ ठ. भा. विद्यालय राजनांदगाँव में कक्षा दसवीं के छात्र हैं। नगर निगम आयुक्त राजनांदगाँव को अपने मोहल्ले में सफाई न होने की शिकायत कीजिए।

### अथवा

अमने पित्र रमेश दुग्गा को हाईस्कूल परीक्षा प्रावीण्य सूची में उत्तीर्ण होने पर एक बधाई पत्र लिखिए।

24. किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए :

- (i) देश में बढ़ता भ्रष्टाचार।
- (ii) शिक्षा का अधिकार।
- (iii) वर्तमान में कम्प्यूटर का महत्व।
- (iv) पर्यावरण-प्रदूषण कारण और निवारण

25. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए।  
 “ स्वस्थ शरीर के लिये व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम दो प्रकार का होता है—मानसिक और शारीरिक। पढ़ना, लिखना मनन-चिन्तन मानसिक व्यायाम के अंग हैं। घूमना, कसरत करना आदि शारीरिक व्यायाम कहलाता है। मानसिक व्यायाम के पश्चात् शरीर को विश्राम देना चाहिए। इसके साथ ही यह सत्य है कि मानसिक और बौद्धिक व्यायाम में स्फूर्ति के लिये शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। जो लोग शारीरिक व्यायाम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, उनके लिये व्यायाम को क्षेत्र अलग है। ऐसे लोगों के लिये यह व्यायाम आगे चलकर पहलंवानी का उद्देश्य बन जाता है। ”

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

- (i) इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिये।
- (ii) व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं?
- (iii) मानसिक व्यायाम के अंग कौन-कौन से हैं?
- (iv) मानसिक व्यायाम में स्फूर्ति के लिये क्या आवश्यक है?
- (v) स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है?